

# MONIND LIMITED

---

**Regd. Off. :** Block-7, Room No. 78, Deen dayal awas, Kabir Nagar Raipur, CT 492099  
**CIN:** L51103CT1982PLC009717; **Corp Office:** Monnet House, 11 Masjid Moth,  
Greater Kailash Part II, New Delhi-110048; **Phones:** 011-29223112; Ph. : +91-877-0344104  
**E-Mail:** [isc\\_mind@monnetgroup.com](mailto:isc_mind@monnetgroup.com); **website:** [www.monnetgroup.com](http://www.monnetgroup.com)

**August 29, 2025**

**BSE Ltd**  
Phiroze Jeejibhoy Towers, Dalal Street,  
Mumbai – 400001

**The Calcutta Stock Exchange Ltd**  
7, Lyons Range,  
Kolkata- 700001

**Scrip Code – 532078**

**Sub: Intimation of Newspaper Publication regarding 42<sup>nd</sup> Annual General Meeting of Monind Limited (“the Company”)**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“**SEBI Listing Regulations**”), please find enclosed herewith copy of the advertisement published today in the following newspapers containing information regarding 42<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Company to be held on Monday, September 29, 2025 at 12.30 PM (IST) through Video Conference(“VC”)/ Other Audio-Visual Means(“OAVM”):

1. Financial Express (All Edition, English Daily)
2. Raj Express (Raipur Edition, Hindi Daily)

The aforesaid disclosure will also be hosted on Company’s website at [www.monnetgroup.com](http://www.monnetgroup.com)

This is for your information and records.

Thanking you,

**FOR MONIND LIMITED**

**RITIKA AHUJA**  
**COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER**

---





**WHIRLPOOL OF INDIA LIMITED**  
CIN No: L29191PN1960PLC020063  
Regd. Office: Plot No. A-4 MIDC, Ranjangaon, Taluka- Shirur, Distt- Pune - 412220, Maharashtra  
Corporate Office: Plot 40 Sector-40, Gurugram - 122002, Haryana  
Website: www.whirlpoolindia.com, Email: investor\_contact@whirlpool.com

**PUBLIC NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES**  
Notice is hereby given that the undermentioned Share Certificates have been reported lost/misplaced and the registered holders thereof/claimants thereto have requested to the Company for issuance of Duplicate Share Certificate(s) in lieu of lost share certificate(s):

S. No	Folio No.	Name	Shares	Distinctive No.	Share Certificate No.
1	001516P	PUSAPATI VIZIARAMA GAJAPATI RAJU	21230	482478-503707	691763
2	001471S	SUNIL NATVARLAL MEHTA	450	470175-470624	691711

Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the aforesaid Share Certificate(s) should lodge the claim in writing with RTA of the Company at delhi@in.mmps.mufg.com or by sending the claim documents at the below mentioned address within 15 days from the publication hereof. In the absence of any claim being lodged within 15 days, the Company will not thereafter be liable to entertain any claim in respect of the said Share Certificate(s) and shall proceed to issue the Duplicate Share Certificate(s) pursuant to Rule 4(3) of the Companies (Issue of Share Certificate) Rule 1960.

The above information is also available on the website of the company.


**MUFG Intime India Private Limited**  
*(formerly known as Link Intime India Private Limited)*  
Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058.

For Whirlpool of India Limited

Sd/-  
Sweta Srivastava  
(Company Secretary)

Place : Gurugram (Haryana)

Date : August 29, 2025



**STL GLOBAL LIMITED**  
CIN: L19909DL1997PLC088667  
Regd. Office: Unit No. 111, Block No. 1, First Floor, Tribhuwan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi-110065  
Website: www.stl-global.com, Tel: 011-26935829, e-mail: investors@stl-global.com

**NOTICE TO THE MEMBERS/SHAREHOLDERS OF 28<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**  
Dear Member(s)/Shareholder(s),  
1. Notice is hereby given that the 28<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company (28<sup>th</sup> AGM) will be convened on Tuesday, 30<sup>th</sup> September, 2025 at 11:00 A.M. IST through Video conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) Facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular No. 09/2024 dated 19.09.2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/PICIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (the e-AGM circulars), without the physical presence of the Members at a common venue.  
2. The Notice of the 28<sup>th</sup> AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 including the financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2025 will be sent only by email to all those members, whose email addresses are registered with the Company/RTA or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the above-mentioned MCA Circular and the SEBI Circular. Members can join and participate in the 28<sup>th</sup> AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 28<sup>th</sup> AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 28<sup>th</sup> AGM are provided in the Notice of 28<sup>th</sup> AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act 2013. The Notice of the 28<sup>th</sup> AGM and the Annual Report will also be available soon on the website of the Company at [www.stl-global.com](http://www.stl-global.com) and the website of BSE Limited (BSE) at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of National Stock Exchange of India Limited (NSE) at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively in due course.  
3. Members holding shares in physical form who haven't registered their email addresses with the Company/Depository can obtain Notice of the 28<sup>th</sup> AGM, Annual Report and/or login details for joining the 28<sup>th</sup> AGM through VC/OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents by email to [investors@stl-global.com](mailto:investors@stl-global.com) or [delhi@in.mmps.mufg.com](mailto:delhi@in.mmps.mufg.com):  
a) A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address;  
b) Self-attested scanned copy of PAN Card; and  
c) Self-attested scanned copy of any document (such as AADHAR CARD, Driving License, Election ID Card, Passport) in support of the address of the member as registered with the company.  
4. Members holding shares in demat mode are requested to update their email address/ Electronic Bank Mandate with their respective Depository Participants (DP).  
The above-mentioned information is being issued for the information and benefit of all members of the company and is in the compliance with the MCA Circular/ SEBI Circular.  


By order of the Board

For STL GLOBAL LIMITED

Sd/-  
Manil Kr. Nagar  
Company Secretary

Place : Faridabad

Date : 28.08.2025



**AMEYA PRECISION ENGINEERS LIMITED**  
CIN: L29253PN2012PLC145613  
Regd. Office: Gat No. 345, Kasundi (KB)  
Pune-Satara Highway, Pune- 412205 Ph. No. +91 9552589861  
Email: cs@ameyaengineers.com Website: www.ameyaengineers.com

**NOTICE OF 13<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**  
Notice is hereby given that:  
1. The 13th (Thirteenth) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Ameya Precision Engineers Limited ("Company") will be held on Friday, September 19, 2025, at 11.30 a.m. Indian Standard Time ("IST") at Hotel Jaggg's Inn, NH-4, At Post Velu, Khed-Shivapur, Pune-Satara Road, Pune-412205to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated 19th August 2025.  
2. Electronic copies of the Notice of 13th AGM and instructions for remote e-voting, Attendance Slip, Proxy Form and Annual Report of the Company for the financial year 2024-25 have been sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) as on the cut-off date. The Notice of the 13th AGM and the Annual Report for FY 2024-25 are also available on the website of the Company at [www.ameyaengineers.com](http://www.ameyaengineers.com), National Securities Depository Limited (NSDL) at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) and on the website of the Stock Exchange, i.e. National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).  
3. Members holding shares in the dematerialized form, as on the cut-off date, i.e., Friday, 12th September 2025, may cast their vote electronically on the business set forth in the Notice of the AGM through the electronic system of the National Securities Depository Limited ("NSDL") from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"). All the Members are informed that:  
i) The business, as set forth in the Notice of the AGM, may be transacted through remote e-voting;  
ii) The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 16, 2025, at 9:00 A.M. (I.S.T.)  
iii) The remote e-voting shall end on Thursday, September 18, 2025, at 5:00 P.M. (I.S.T.)  
iv) The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the AGM is Friday, 12th September 2025.  
v) The remote e-voting shall be allowed up to 5:00 P.M. (I.S.T.) on Thursday, September 18, 2025.  
vi) Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and holds the shares of the Company as on the cut-off, i.e. Friday, 12th September 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then the existing user ID and password can be used for casting vote.  
vii) Members may note that: a) The remote e-voting module will be disabled by NSDL beyond 5.00 p.m. (I.S.T.) on Thursday, 18th September 2025, and once the member casts a vote on a resolution, he/she shall not be allowed to change it subsequently; b) The facility for voting through the ballot paper will be made available at the AGM for Members present at the meeting; c) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) Only persons whose names are recorded in the Register of Members or the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be entitled to vote using the remote e-voting facility or at the AGM using the ballot paper.  
viii) In case of queries related to e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members in the "Downloads" section of the NSDL's website or call on 022-4886 7000 and 022- 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)  

Place : Pune

Date : 29.08.2025

Sd/-  
For Ameya Precision Engineers Limited

Chaitanya Date  
Company Secretary and Compliance Officer



**WHIRLPOOL OF INDIA LIMITED**  
CIN No: L29191PN1960PLC020063  
Regd. Office: Plot No. A-4 MIDC, Ranjangaon, Taluka- Shirur, Distt- Pune - 412220, Maharashtra  
Corporate Office: Plot 40, Sector-40, Gurugram-122002, Haryana  
Website: www.whirlpoolindia.com | Email: investor\_contact@whirlpool.com

**ATTENTION SHAREHOLDERS**  
Opening of Special Window for Re-lodgement of Transfer of requests of Physical Shares  
Notice is hereby given to Shareholders that in terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/PICIR/2025/97 dated July 02, 2025, a Special window has been opened for a period of six months, from July 07, 2025 to January 06, 2026, to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares.  
This facility is available for transfer deeds that were lodged prior to April 01, 2019, but were rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process or otherwise.  
All transfer requests duly rectified and re-lodged during the aforesaid period will be processed through the transfer-cum-demat mode, i.e., the shares will be issued only in dematerialised form after transfer. The lodger(s) must have a demat account and provide the Client Master List (CML) along with the transfer document(s), share certificate(s) and other necessary document(s) while lodging the documents for transfer with our Registrar and Share Transfer Agent (RTA).  
Eligible shareholders are requested to contact the Company's RTA i.e. MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited) at Noble Heights, 1st Floor, Plot, NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058, Tel. No. 91-11-41410- 592, 593, 594, E-mail ID: [delhi@in.mmps.mufg.com](mailto:delhi@in.mmps.mufg.com), Website: <https://in.mmps.mufg.com/> OR contact the Company at [investor\\_contact@whirlpool.com](mailto:investor_contact@whirlpool.com) for further assistance.  
Eligible shareholders are requested to submit their transfer requests duly completed in all respects on or before the SEBI deadline i.e. January 06, 2026.  

For Whirlpool of India Limited

Sd/-  
Sweta Srivastava  
Company Secretary

Place : Gurugram, Haryana

Date : August 29, 2025



**MONIND LIMITED**  
Regd. Off. : Block-7, Room No. 78, Deendyalawas, Kabir Nagar, Rajpur, Chhattisgarh - 492099  
CIN: L51103CT1982PLC009717; Corp. Office: 11, Monnet House Masjid Moth, Greater Kailash Part II, New Delhi-110048 Phones: 011-29223112, Ph. : +91-877-0344104  
E-Mail: [isc\\_mind@monnetgroup.com](mailto:isc_mind@monnetgroup.com) website: [www.monnetgroup.com](http://www.monnetgroup.com)

**NOTICE FOR REGISTRATION OF EMAIL ID'S FOR THE PURPOSE OF THE 42ND ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS**  
Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting ("AGM") of Monind Limited is scheduled to be held on Monday, September 29, 2025 at 12:30 P.M. through Video Conference ("VC") /Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the AGM Notice which will be circulated in due course for convening the AGM.  
In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and pursuant to the Ministry of Corporate Affairs, inter alia vide its General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and the General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024/collectively "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/PICIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by Securities Exchange Board of India, companies are permitted to conduct the Annual General Meeting through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means ("OAVM") till September 30, 2025 without physical presence of the members at a common venue. Hence, in accordance with aforesaid Circulars, 42nd AGM of the Company will be held through VC/OAVM on Monday, September 29, 2025 at 12:30 P.M. without physical presence of the members.  
The Annual Report including the Financial Statements for the financial year ended March 31, 2025 along with the Notice of the AGM will be sent electronically to those members whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent of the Company/with the respective Depository Participant(s) in accordance with the Circulars referred above. No physical copy of the Notice and Annual Report will be sent to any member, however physical copy of the Annual Report will be sent to the shareholders upon request for the same.  
Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for the year 2024-2025 will also be available at the Company's website at [www.monnetgroup.com](http://www.monnetgroup.com), website of the stock exchange i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and website of Registrar and Share Transfer Agent i.e. MCS Share Transfer Agent Limited ("RTA") at [www.mcsregistrars.com](http://www.mcsregistrars.com). The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.  
The Company is providing remote e-voting facility ("Remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM will be provided in the Notice of the AGM.  
**Manner of registering/updating e-mail address:**  
For permanent registration/update of the email addresses, members may send request with the relevant Depository Participant in case share held in electronic form and with the Company's RTA in case shares are held in physical form. Members holding shares in physical form may send an e-mail request at the email id [admin@mcsregistrars.com](mailto:admin@mcsregistrars.com) along with scanned copy of Form ISR – 1 and self-attested copy of PAN Card & Aadhaar Card etc. The said Form ISR – 1 is available on the website of the Company.  
The Notice of 42nd AGM and Annual Report 2024-2025 will be sent to shareholders in accordance with the applicable laws on their registered e-mail addresses in due course.  

For Monind Limited

Sd/-  
Ritika Ahuja  
Company Secretary

Place : New Delhi

Date : 29.08.2025



**MTAR TECHNOLOGIES LIMITED**  
18, Technocrats Industrial Estate, Balanagar, Hyderabad, Telangana-500037  
CIN: L7220DTG1999PLC032935


**NOTICE OF 26th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**  
Notice calling the 26th Annual General Meeting (AGM) of the Company (MTAR Technologies Limited) scheduled to be held on Thursday, the 18th day of September, 2025 at 11.00 a.m. (IST) to transact the business as set out in the Notice of the AGM in compliance with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities Exchange Board of India through Video Conferencing (VC) and Other Audio-Visual Means (OAVM) and the stand-alone and consolidated, audited financial statements for the Financial Year 2024-25, along with the Board's report, Auditor's report and other documents required to be attached thereto to the annual report have been sent on 26.08.2025, electronically to the members of the Company. The Notice of the AGM and the aforesaid documents are available on company's website at [www.mtar.in](http://www.mtar.in) and on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company have been listed viz. BSE Limited - [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited - [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).  
The Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), vide its General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. 09/2024 dated 19th September, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred as "MCA Circulars") and SEBI Circular(s) dated 12th May, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular dated 30 October, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circulars) has permitted the holding of the Annual General Meeting through video conferencing or other audio-visual means, without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with the above and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").  
The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for the inspection of members from the date of circulation of the notice of the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to [naina.singh@mtar.in](mailto:naina.singh@mtar.in).  
**Remote e-voting and e-voting during the AGM**  
The Company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means (e-voting). Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below (remote e-voting). The Company has engaged the services of KFinTech as the agency to provide e-voting facility.  
Information and instructions comprising manner of voting, including voting remotely by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the notice of the AGM.  
The remote e-voting facility will be available during the following voting period:  
**Commencement of remote e-voting** From 9.00 a.m. (IST) on Monday, 15th September, 2025  
**End of remote e-voting** Up to 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, 17th September, 2025  
The remote e-voting will not be allowed before the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by KFinTech upon expiry of the aforesaid period.  
Members may note that the facility for remote e-voting module will also be made available during the AGM (Insta Poll) and those members present in the AGM through VC facility, who have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting or otherwise are eligible to vote through e-voting system at AGM. The members who have casted their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast the vote again.  
A person, whose name is recorded in the Register of Members as on Cut-Off date i.e., Thursday, 11th September 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for voting through Insta Poll.  
Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from 12th September 2025 to 18th September 2025 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.  
**Manner of registering /updating email address:**  
i. Notice and Annual Report for 26th Annual General Meeting is being sent to shareholders whose e-mail IDs are registered with Depositories/ Company's Registrar and Share transfer agent i.e. KFin Technologies Limited. For the members whose email IDs are not registered a separate letter with the link to the Annual Report will be sent in compliance with Section 136 of the Companies Act, 2013 and Regulation 36(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.  
ii. Members holding shares in physical mode, if any, or who have not registered / updated their e-mails with the Company, are requested to register / update the same writing to the company with the details of the folio number, e-mail address and attaching a self-attested copy of PAN card at [naina.singh@mtar.in](mailto:naina.singh@mtar.in) or to KFinTech at [seward.ra@kfin.tech](mailto:seward.ra@kfin.tech).  
iii. Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their e-mail addresses are requested to register / update their e-mail address with the Depository Participant(s) where they maintain their demat account.  
In case of any query pertaining to e-voting, Members may refer to the 'Help' and 'FAQs' section / e-voting user manual available through a dropdown menu in the 'Downloads' section of KFinTech's website for e-voting: <https://evoting.kfintech.com>  
Members are requested to take note that they may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting User Manual available at the 'download' section of <https://evoting.kfintech.com> or call KFin Technologies Ltd. on 1800 309 4001 (toll free).  
Members will be able to attend the e-AGM through VC/OAVM facility provided by KFin at <https://meetings.kfintech.com> by clicking on the tab 'video conference' and using their remote e-voting login credentials as provided by KFinTech. The link for e-AGM will be available in Members login where the EVENT and the name of the Company can be selected. Members who do not have User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the instructions mentioned in the notice of AGM.  
The Board of Directors of the Company has appointed M/s. S.S. Reddy & Associates, Practicing Company Secretaries as Scrutinizers to scrutinize the e-voting process and voting at the AGM in a fair and transparent manner. The result declared along with the Scrutinizer's report shall be communicated to the stock exchanges and will also be displayed on the Company website [www.mtar.in](http://www.mtar.in) within 48 hours from the conclusion of AGM.  

For MTAR Technologies Limited

Sd/-  
Naina Singh  
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Hyderabad

Date : 26.08.2025



**GOENKA BUSINESS & FINANCE LIMITED**  
Regd. Office: 18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No.4, 2nd Floor, Room No.17 Kolkata-70001  
Corporate Office: 3rd Floor 3E Rajayash Uniza Corporate Office Above Starbucks Premchand Nagar road, opposite Krishna Complex Satellite, Jodhpur Char Rasta, Ahmedabad, Ahmedabad City, Gujarat, India, 380015  
CIN: L67120WB1987PLC042960, Website: [www.goenkabusinessfinanceindia.com](http://www.goenkabusinessfinanceindia.com)  
E-mail id: [goenkabusiness1987@gmail.com](mailto:goenkabusiness1987@gmail.com), Ph: 091 9375560002

**INFORMATION REGARDING THE 38TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VC/OAVM**  
This is to inform that the 38th Annual General Meeting ("AGM"/"Meeting") of Goenka Business & Finance Limited ("the Company") has been convened to be held at 04:00 P.M. (IST) on Friday, 26th September, 2025 through Video Conferencing ("VC") facility/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, read with General Circulars dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and subsequent circulars including 19th September, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars), and SEBI circular dated 9th December, 2020 regarding e-voting and participation in general meetings through VC/OAVM.  
The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) for providing VC/OAVM and e-voting facility to all Members to enable them to attend the AGM and also cast their vote electronically on all the resolutions as set out in the Notice of AGM. Facility for e-voting during the AGM will also be available to those Members who attend the Meeting and have not cast their vote through remote e-voting. Members who have already cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to vote again. The detailed procedure for e-voting and VC/OAVM participation is provided in the Notice of AGM.  
Please note that no provision has been made for physical attendance at the 38th AGM. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.  
The Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2024-25 is being sent electronically to Members whose email addresses are registered with the Company/ Registrar and Transfer Agent (RTA)/Depository Participants. The said documents will also be available on the websites of the Company ([www.goenkabusinessfinanceindia.com](http://www.goenkabusinessfinanceindia.com)), BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and NSDL ([www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)). In compliance with MCA and SEBI Circulars, no physical copies will be sent. Members who have not registered their email addresses are requested to update the same with their Depository Participant (for demat holdings) or with the RTA (for physical holdings).  
For detailed instructions pertaining to E-Voting, members may please refer Notes to the Notice of 38th AGM. In case of any queries or grievances pertaining to E-Voting procedure, shareholders may get in touch with Mr. Dharmik Solanki, Company Secretary by writing to the Corporate Office of the Company or via e-mail at [compliance@gbf.co.in](mailto:compliance@gbf.co.in) as mentioned aforesaid.  
Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of The Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members, Share Transfer Books and Register of Beneficial Owners of the Company will remain closed from Saturday, 20th September, 2025 to Friday, 26th September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM.  


By Order of the Board,

For Goenka Business & Finance Limited

Sd/-  
Dharmik Solanki  
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Ahmedabad

Date: 28.08.2025



**HINDUSTAN AGRIGENETICS LIMITED**  
Corporate Identification Number (CIN): L01119DL1990PLC040979  
Registered Office: C-1/5, Second Floor, Safdarjung Development Area, New Delhi - 110016  
(shifted from 806, Meghdoot, 94 Nehru Place, New Delhi - 110019  
pursuant to a resolution passed at the Board Meeting of the Target Company held on January 17, 2025)  
Tel: +91 9810273609; Website: [www.hindustanagrigenetics.co.in](http://www.hindustanagrigenetics.co.in)

**Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Hindustan Agrigenetics Limited ("Target Company") on the Open Offer made by Rajendra Naniwadekar ("Acquirer") to the Eligible Equity Shareholders of the Target Company ("Public Shareholders"), under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations").**

1.	Date	28 <sup>th</sup> August 2025
2.	Name of the Target Company (TC)	Hindustan Agrigenetics Limited
3.	Details of the Open Offer pertaining to the TC	Open Offer for acquisition of up to 11,44,052 (Eleven Lakh Forty Four Thousand And Fifty Two) fully paid up equity shares of face value of INR 10/- (Indian rupee ten) each ("offer shares"), representing 26% (Twenty Six Per Cent) of the voting equity share capital from the public shareholders of the Target Company by Rajendra Naniwadekar ("Acquirer") pursuant to and in compliance with the requirements of the Securities And Exchange Board Of India (Substantial Acquisition Of Shares And Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("open offer" or "offer"). The Public Announcement dated January 13, 2025 ("PA"), the Detailed Public Statement published on January 20, 2025 ("DPS"), the Draft Letter of Offer dated January 27, 2025 ("DLOF"), and the Letter of Offer dated August 25, 2025 ("LOF") have been issued by Bajaj Capital Securities Limited (formerly Bajaj Capital Holdings Limited) ("Manager to the Offer") on behalf of the Acquirer.
4.	Name(s) of the Acquirer and PACs with the Acquirer	<b>Acquirer:</b> Rajendra Naniwadekar <b>PACs:</b> There are no persons acting in concert (PACs) with the Acquirer for the purpose of the Open Offer.
5.	Name of the Manager to the Open Offer	<b>Bajaj Capital Securities Limited</b> <i>(formerly Bajaj Capital Holdings Limited)</i> <b>Registered Address:</b> Mezzanine Floor 97, Bajaj House, Nehru Place, New Delhi – 110019, India <b>Contact Person:</b> G. Akila <b>Tel. No.:</b> +91 11 - 67000000 <b>Email:</b> <a href="mailto:info@bajajcapitalsec.com">info@bajajcapitalsec.com</a> <b>SEBI Registration Number:</b> INM000013208 <b>Validity Period:</b> Permanent Registration
6.	Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	a. Ravi Shankar Kolathur (Chairperson) b. Sunny Shrivastav (Member) c. Naren Parsai (Member)
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	All members of the IDC are Independent Directors on the Board of Directors of the Target Company. None of the members of the IDC hold any equity shares or other securities of the Target Company or have any contract/ relationship with the Target Company other than their appointment as Independent Directors of the Target Company.
8.	Trading in the equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	Not Applicable in lieu of point no. 7 above.
9.	IDC Member's relationship with the Acquirer (Director, equity shares owned, any other contract/ relationship), if any.	None of the members of IDC have any relationship with the Acquirer
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable since the Acquirer is an individual
11.	Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The IDC is of the view that the Open Offer made to the public shareholders at an Offer Price of INR 54/- (Indian Rupees Fifty-Four) per equity share is fair and reasonable, and in accordance with the SEBI (SAST) Regulations. However, the Public Shareholders shall independently evaluate the Open Offer and take an informed decision in their best interest.
12.	Summary of reasons for the recommendation	The IDC has perused the Public Announcement dated January 13, 2025, Detailed Public Statement dated January 20, 2025, the Draft Letter of Offer dated January 27, 2025, and the Letter of Offer dated August 25, 2025. Based on the review of the above, the IDC is of the view that the Open Offer Price of INR 54/- per equity share as computed in accordance with SEBI (SAST) Regulations, is fair and reasonable. However, the public shareholders are advised to independently evaluate the Open Offer and take an informed decision on whether or not to tender their shares in the Open Offer. A copy of the publication relating to the recommendations of the IDC is available on the Company's website at <a href="http://www.hindustanagrigenetics.co.in">www.hindustanagrigenetics.co.in</a>
13.	Details of Voting Pattern	The recommendation was unanimously approved by the members of the IDC at its meeting held on August 28, 2025.
14.	Details of Independent Advisors, if any	None
15.	Any other matter to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respects, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

For and on behalf of the Committee of the Independent Directors of Hindustan Agrigenetics Limited

Ravi Shankar Kolathur  
Chairperson – Committee of Independent Directors  
DIN: 03595161

Date : August 28, 2025

Place : New Delhi



# ‘पुष्प की अभिलाषा’ से देश-समाज के लिए काम करने की मिलती है प्रेरणा

कैदियों ने का सामूहिक रूप से किया कविता पाठ, समारोह में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव

● रायपुर / राज न्यूज नेटवर्क

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कालजयी कविता ‘पुष्प की अभिलाषा’ का गुरुवार को केन्द्रीय जेल बिलासपुर में सामूहिक पाठ किया गया। स्वर्गीय चतुर्वेदी ने बिलासपुर केन्द्रीय जेल में निरुद्ध रहने के दौरान 18 फरवरी 1922 को इस देशभक्तिपूर्ण काव्य की रचना की थी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की मौजूदगी में कैदियों ने इसका सामूहिक पाठ किया। केन्द्रीय जेल प्रशासन द्वारा एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र



समूह के सहयोग से इस प्रेरणादायी कविता पाठ समारोह का आयोजन किया गया था। विधायक सुशांत शुक्ला, वरिष्ठ साहित्यकार सतीश जायसवाल तथा संपादक एवं कवि देवेन्द्र कुमार सहित

चतुर्वेदी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि बिलासपुर के इस ऐतिहासिक जेल में देशभक्त साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी के प्रति श्रद्धा एवं आदरभाव व्यक्त करने एकत्र हुए हैं। देश के लिए बलिदान का क्या महत्व है? इस कालजयी रचना के जरिए बताया गया है। उन्होंने कहा कि एक फूल की इच्छा है कि वह सम्राट अथवा देवता के सिर पर नहीं, बल्कि उस मार्ग में सेनानियों के पैरों तले कुचला जाना मंजूर करता है जिस पथ से होकर सेनानी देश को आजाद करने की लड़ाई में आगे बढ़ें। यह देश के



लिए महती त्याग और बलिदान की भावना है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चतुर्वेदी की आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका थी। देशभक्ति की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी थी। वे 5 जुलाई

छत्तीसगढ़ के लिए यह कविता बड़ी धरोहर है। इससे हम सबको अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी।

साव ने कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी प्रकांड विद्वान और देशभक्त थे। ‘एक भारतीय आत्मा’ के नाम से उन्हें जाना जाता है। देश की आजादी के बाद उन्हें प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ‘पुष्प की अभिलाषा’ शीर्षक से रचित कविता का एक-एक शब्द देशभक्ति के भावों से भरा हुआ है। यह हम सबको देश और समाज के लिए समर्पण भाव से काम करने के लिए प्रेरित करता है। दीपक सिंह, मोहित जायसवाल और जेल अधीक्षक खोमेश मंडवी भी समारोह में मौजूद थे।

## चक्रधर समारोह का भव्य शुभारंभ, संस्कृति कला और साहित्य का हुआ अद्भुत संगम

राज्यपाल ने भगवान गणपति की पूजा-अर्चना कर और संगीत सम्राट महाराजा को नमन



मुख्य आकर्षण

- 10 दिवसीय सांस्कृतिक संगम
- देश-विदेश के कलाकारों की प्रस्तुतियां
- रायगढ़ घराने की परंपरा को सम्मान

● रायगढ़ / राज न्यूज नेटवर्क

भारतीय शास्त्रीय कला और संस्कृति की समृद्ध परंपरा को सहेजते हुए रायगढ़ में 40वें चक्रधर समारोह का भव्य शुभारंभ हुआ। राज्यपाल रमेश डेका ने भगवान गणपति की पूजा-अर्चना कर एवं संगीत सम्राट महाराजा चक्रधर सिंह को नमन करते हुए इस ऐतिहासिक आयोजन की शुरुआत की।

उन्होंने कहा कि समारोह अतीत की स्वर्णिम स्मृतियों को जोड़ने और अमूल्य धरोहर को संजोने का संकल्प है। रायगढ़ का नाम लेते ही संगीत, नृत्य और कला के रंगों की छवि सामने

आती है। रायगढ़ घराने की कथक परंपरा ने भारतीय संस्कृति को नई ऊंचाइयां दी हैं। महाराजा चक्रधर सिंह की रचनाएं नर्तन सर्वस्वम, तालतोय निधि और राग रत्न मंजूषा भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनमोल धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, खासकर उस दौर में जब आधुनिकता की दौड़ में लोग संस्कृति से दूर हो रहे हैं। राज्यपाल ने यह भी बताया कि असम राज्य में महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में

10 दिन तक कला का उत्सव

यह समारोह केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारतीयता की आत्मा को महसूस करने का अवसर है। 10 दिनों तक कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी नृत्य, शास्त्रीय गायन, वाद्य वादन और लोककला जैसी प्रस्तुतियां होंगी। इस अवसर पर राज्यपाल, केन्द्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, जनप्रतिनिधि अधिकारी और बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहेंगे।

को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। वहीं सांसद राधेश्याम राठिया ने इसे रायगढ़ की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला आयोजन बताया।



पुरस्कार शुरू किए जाएंगे, जिससे रायगढ़ और असम के ऐतिहासिक रिश्ते और मजबूत होंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि चक्रधर समारोह को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए ठोस प्रयास जारी हैं। उन्होंने रायगढ़ के लगातार विकास और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत बनाने की योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से आस्था और पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि एक गोड आदिवासी राजा द्वारा कथक नृत्य को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। वहीं सांसद राधेश्याम राठिया ने इसे रायगढ़ की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला आयोजन बताया।

केन्द्रीय मंत्री ने किया भारतीय संस्कृति का गौरवगान

केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में एकता है। उन्होंने स्मरण किया कि जब कथक नृत्य में जयपुर और बनारस घराने का दबदबा था, उस समय रायगढ़ घराने की स्थापना कर महाराजा चक्रधर सिंह ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। हमारी लोककलाएं और परंपराएं फिर से सशक्त हो रही हैं। शेखावत ने भरोसा दिलाया कि आने वाले 10 दिन रायगढ़ सांस्कृतिक रंगों से सराबोर रहेगा और देश-विदेश से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से इसे और भव्य बनाएंगे।



## ऋषि पंचमी पर सांपों की निकाली शोभायात्रा

अब तक गांव में नहीं हुई सर्पदंश की घटना

● राजिम / राज न्यूज नेटवर्क

ऋषि पंचमी पर गरियाबंद जिले के देवरी गांव में जहरीले सांपों की शोभायात्रा निकाली गई, जिसे देखने अंचल के हजारों लोग पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक, इस गांव में सांवरा समिति के लोग घरों में सांप निकलने पर उन सांपों को संरक्षित करने के लिए पकड़ते हैं और ऋषि पंचमी पर पूजा-अर्चना कर शोभायात्रा निकालते हैं। फिर सुरक्षित जंगलों में छोड़ देते हैं।

सांवरा गुरु पाठशाला में सिखाया जाता है सांपों को पकड़ना : देवरी गांव में स्थित सांवरा गुरु पाठशाला इस परंपरा का केंद्र है, जहां युवाओं को सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़ना और उन्हें संरक्षित करना सिखाया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह आयोजन केवल आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण और जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता का अनूठ

पूजा करने उमड़े लोग

हर साल की तरह इस बार भी सांवरा समिति ने यह विशेष आयोजन किया। परंपरा के अनुसार, घरों और खेतों में निकलने वाले जहरीले सांपों को ग्रामीण सुरक्षित तरीके से पकड़ते हैं। इन्हें सांपों की पूजा-अर्चना कर शोभायात्रा निकाली जाती है। गांव-गांव से पहुंचे लोग जगह-जगह पूजा-अर्चना करते हैं और शोभायात्रा का स्वागत करते हैं। शोभायात्रा समाप्त होने के बाद सभी सांपों को सुरक्षित रूप से जंगलों में छोड़ दिया जाता है। गांव के लोगों का मानना है कि वर्षों से यह परंपरा चल रही है। अब तक किसी भी व्यक्ति के साथ सर्पदंश की कोई अनहोनी घटना नहीं घटी है।

उदाहरण भी है। देवरी में हर साल होने वाला यह आयोजन केवल आस्था का प्रतीक और श्रद्धा का पर्व बन चुका है, जिसे देखने लोग दूर-दूर से आते हैं।

बच्चों के भोजन में फिनाइल की गोली का मामला

## अधीक्षक को हटाने का छात्रों ने जताया विरोध स्कूल में तालाबंदी की तो पहुंचे अधिकारी



● सुकमा / राज न्यूज नेटवर्क

सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड स्थित आवासीय पोटाकेबिन विद्यालय के बच्चों के भोजन में फिनाइल गोली मिलने का मामला तूल पकड़ता जा

रहा है। घटना पर जहां हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, वहीं कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव की कार्रवाई के बाद गुरुवार को छात्रों ने स्कूल गेट पर तालाबंदी कर अधीक्षक को यथावत रखने की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन की

सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनके समझाइश के बाद छात्रों का विरोध खत्म हुआ। बता दें कि कलेक्टर ने मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए अधीक्षक और सहायक अधीक्षक को छात्रावास से हटा दिया था। वहीं दोषी शिक्षक को निर्लंबित भी कर दिया था। शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे जेल भी दाखिल कर दिया गया है। अब इसी कार्रवाई के बीच छात्रों ने अधीक्षक को हटाने के विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई है लेकिन अधीक्षक को हटाया जाना उचित नहीं है।



## एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी, सिर मुंडवाकर जताया विरोध

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के 16 हजार से ज्यादा सविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बीते 18 अगस्त से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मोदी की गारंटी को आधार बनाते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार

पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सरकार की अनेकरी से नाराज कर्मचारियों का हड़ताल गुरुवार को 11 वें दिन भी जारी है। सूरजपुर बस स्टैंड के पास एनएचएम कर्मचारियों ने नियमितकरण समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सिर मुंडवा

कर विरोध प्रदर्शन किया है। लगातार 11 दिनों से वे अपनी मांगों को लेकर अलग-अलग जिलों में अलग-अलग ढंग से हड़ताल कर रहे हैं। बीते दिन बुधवार को मनेंद्रगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों ने पीपीई किट पहनकर बाजार में भीख मांगते हुए प्रदर्शन किया था।

विधायक सुश्री उसेंडी ने 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का किया शुभारंभ

## बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए खेल अत्यंत जरूरी

● रायपुर / राज न्यूज नेटवर्क

बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी ने गुरुवार को जिला मुख्यालय कोंडागांव के विकास मण्डल स्टेडियम में 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

यह प्रतियोगिता 28 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक चलगी, जिसमें राज्य के रायपुर, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के लगभग 570 खिलाड़ी फुटबाल,

तीरंदाजी और मलखंभ खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इस दौरान खिलाड़ियों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सुश्री उसेंडी ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए खेल अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेल न केवल शारीरिक-मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग के खिलाड़ी तीरंदाजी और मलखंभ जैसे खेलों



में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर नई पहचान बना रहे हैं। सुश्री उसेंडी ने विश्वास जताया कि क्षेत्र के खिलाड़ी अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा के

दम पर जिले और क्षेत्र का नाम, प्रदेश, देश और अंतराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के

लिए राज्य सरकार द्वारा कई सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। साथ ही अलंकरण समारोह भी दिया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान समय में मोटापा एक गंभीर समस्या बन रही है और इससे निपटने का सबसे प्रभावी साधन खेल ही है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ आगे बढ़ने

और अनुशासन के साथ खेलने की बात कही। अंत में विधायक ने सभी संभाग के खिलाड़ियों से संवाद किया और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शुभारंभ कार्यक्रम को मनोज जैन ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर नया उपाध्यक्ष जसकेतु उसेण्डी, राज्य तीरंदाजी संघ के उपाध्यक्ष दीपेश अरोरा, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती भारती प्रधान, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित थे।

## मोनिंड लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ब्लॉक-7, कमरा सं. 78, दीनदयाल आवास, कबीर नगर, रायपुर, सीटी 492099  
सीआईएन: L51103CT1982PLC009717; कॉर्पोरेट कार्यालय: 11, मोहन हॉस्प, मैनजूर रोड, गेट नं. 1, नई दिल्ली-110048; दूरभा: 011-29223112; दूरभा: +91-877-0344104  
ईमेल: [isc\\_mind@monnetgroup.com](mailto:isc_mind@monnetgroup.com); वेबसाइट: [www.monnetgroup.com](http://www.monnetgroup.com)

वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो-विडियो माध्यमों से आयोजित होने वाली 42वीं वार्षिक आम बैठक के लिए ईमेल आईडी पंजीकरण हेतु सूचना

पद द्वाारा सूचित किया जाता है कि मोनिंड लिमिटेड की 42वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:30 बजे आयोजित की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओवीएम") के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्धारित कार्य का निष्पादन किया जाएगा, जिसे एजीएम बुलावे के लिए स्वागत योग्य प्रसारित किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), भारतीय प्रभुति और विनियम बोर्ड ("सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं") विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसूच में, अन्य बातों के साथ-साथ इसके सामान्य परिचय संख्या 14/2020 दिनांक 08 अगस्त, 2020, सामान्य परिचय संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और सामान्य परिचय संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 (सामूहिक रूप से "पंजीकृत परिसर") पर सेबी परिचय संख्या सेबी/एचओ/सीएचडी/सीएचडी-पीओडी-2/पीसीआईआई/2024/1133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 को भारतीय प्रभुति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी किए गए, कनिष्ठों को सितंबर तक वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओवीएम") के माध्यम से 30 सितंबर, 2025 को सदस्यों की एक ही स्थान पर आयोजित उपस्थिति के बिना वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति है। अतः, उपरोक्त परिचयों के अनुसार, कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:30 बजे वीसी/ओवीएम के माध्यम से सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।

31 मार्च, 2025 को सामान्य विधायक एवं वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ, उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रॉन्सफर एजेंट/संबंधित डिजिटल प्रमाणिकता के पास उपरोक्त परिचयों के अनुसार पंजीकृत हैं। सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की कोई भी भौतिक प्रतियां किसी भी सदस्य को नहीं भेजी जाएगी, हालांकि शेयरधारकों द्वारा अनुरोध किए जाने पर वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां उन्हें भेजी जाएगी।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वर्ष 2024-2025 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट [www.monnetgroup.com](http://www.monnetgroup.com), स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रॉन्सफर एजेंट एमसीएस रजिस्ट्रार ट्रॉन्सफर एजेंट लिमिटेड ("आरटी") की वेबसाइट [www.mcsregistrars.com](http://www.mcsregistrars.com) पर भी उपलब्ध होगी। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शामिल होने के निर्देश वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में दिए गए हैं। वीसी/ओवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोर्स की गणना के लिए की जाएगी।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में दिए गए सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी प्रदान कर रही है, जिसकी जानकारी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में दी जाएगी।

ईमेल पते के पंजीकरण/अवतार का तरीका: ईमेल पते के स्थायी पंजीकरण/अवतार के लिए, यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं, तो सदस्य संबंधित डिजिटल प्रमाणिकता की ओर यदि शेयर भौतिक रूप में हैं, तो कंपनी के आरटीओ को अनुरोध करना चाहेंगे। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, फॉर्म ISR-1 की रकून की गई प्रतियां और पैन कार्ड व आधार कार्ड आदि की स्व-प्रमाणित प्रतियां के साथ ईमेल आईडी [admin@mcsregistrars.com](mailto:admin@mcsregistrars.com) पर ईमेल अनुरोध भेज सकते हैं। उक्त फॉर्म ISR-1 कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

42वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024-2025, लागू कानूनों के अनुसार, शेयरधारकों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर यथासमय भेजी जाएगी।

मोनिंड लिमिटेड के लिए  
हस्ताक्षरकर्ता/  
सिखा आहवा  
कंपनी सेक्रेटरी

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 29.08.2025